



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20--सितम्बर 26, 2003 (भाद्रपद 29, 1925)

No. 38]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20--SEPTEMBER 26, 2003 (BHADRA 29, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110069, दिनांक 24 जुलाई 2003

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं. ए-19016/3/2003-प्रशा.1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 2003 के का. शा. सं. 20/9/20003-सीएस.-II के अनुसरण में व्यक्तिगत उन्नयन आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत के.स.आ. से संवर्ग (स्वास्थ्य) के ग्रेड 'क' एवं 'ख' (व्यक्तियुक्त) में नियमित आशुलिपिक श्री एच. सी. सहगल को 18 जुलाई, 2003 से 31 दिसम्बर, 2003 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के के. स. आ. से संवर्ग में रु. 10,000-325-15,200 के वेतन-मान में प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

सं. डीपी/एडी.5/2003/03322/3/28/2003-प्रशा.5--निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री के. धनंजयन, अपराध सहायक, के. अ. ब्यूरो को 04.08.2003 पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/03336/ए-19036/17/78-प्रशा.5--श्री उमेश ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जुलाई, 2003 अपराह्न से पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्य-भार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/03421/3/26/2003-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री एल. रामचन्द्रन, लेखा अधिकारी, इस्ट्रैक/इसरो, बंगलौर को 28.07.2003 पूर्वाह्न से 27.07.2006 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर तकनीकी अधिकारी (लेखा और आयकर) के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. वैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं. 2/27/02-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्रीमती शारदा खन्ना को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 29.08.2003 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय
(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 अगस्त 2003

सं. ओ.दो-1336/77-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्त होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 14.07.2003 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री सुनील शौरी, कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-1519), 66 बटालियन, के. रि. पु. बल, को उनके पद से दिनांक 19.08.2003 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया गया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 19.08.2003 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 30 अगस्त 2003

सं. ओ.दो-1368/77-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्त होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 21.05.2003 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री विकास शरण, कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-1533), 129 बटालियन, के. रि. पु. (संलग्न महानिदेशालय) (संचार) को उनके पद से दिनांक 10.07.2003 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया गया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 10.07.2003 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

[कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल]

कोलकाता-700001, दिनांक 29 अगस्त 2003

का.आ. (प्रशा. शृंखला) सं. प्रशा. 1/1255-III/2003-04/176--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के दिनांक 16.7.2003 के आदेश के अंतर्गत, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी, जो कि इस समय कार्यालय प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय) कोलकाता में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को अगले आदेश तक अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप में, 7450-225-11500 रुपये के वेतनमान में, नीचे दर्शाये गये उनके अवर द्वारा इस कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के हैसियत में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सहायक लेखा अधिकारी के रूप में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है:--

व्यक्ति का नाम जिन्हें प्रोफार्मा उनके ठीक अगले अवर का नाम प्रोन्नति दी गई

श्री पांथलिंगल संदीप मेनन श्री शतदल बाग

इस मामले में "ठीक निचला नियम" के अधीन प्रोन्नति प्रदान करने के लिए पूर्व उदाहरण की सभी शर्तें पूरी पाई गई तथा यह घोषित किया जाता है कि इस समय प्रतिनियुक्ति पर श्री मेनन जिस पद पर हैं वह नौकरी के साधारण क्रम से बाहर हैं।

श्री मेनन पदोन्नति के दिनांक से दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। पदोन्नति होने पर उनका वेतन एफ आर 22 1(क)(i) के अधीन निर्धारित किया जाएगा जिसके लिए वह इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अंदर वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

एन.एन. हालदार
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) जम्मू व कश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 01 सितम्बर 2003

सं. प्र.-1/ले.प./50--महालेखाकार (ले.प.) जम्मू एवं कश्मीर ने श्री ओमकार सिंह, सहायक ले.प. अधिकारी को स्थानापन्न तौर पर वेतनमान रु. 7500-250-12000 में मुख्य कार्यालय श्रीनगर में कार्यभार संभालने की तिथि से लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रुप "बी") पदोन्नत करने की अनुकंपा की है। वे अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर अगले आदेश तक काम करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारी अपना वेतन निर्धारित करवाने के लिए भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/2/87/वेतन-I दिनांक 9-11-1987 के अंतर्गत अपना विकल्प पदोन्नत तिथि से एक माह के भीतर दे सकते हैं।

हस्ताक्षर
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 3. सितम्बर 2003

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वैच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	एन. राम नरसिंहा चारी	31.8.2003 अप.
2.	के. सुब्बा राव-II	31.8.2003 अप.
3.	ए.आर. सत्य प्रेम कुमार	31.8.2003 अप.
4.	आर. शेषा तल्प साई	31.8.2003 अप.
5.	वाई.वी.एन.वर प्रसाद राव	31.8.2003 अप.
6.	जी. शेषगिरि	31.8.2003 अप.

श्रीनिवासु

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) को अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :-

कर्मचारी का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
श्री वी. मल्लय्या	31.8.2003 अप.

श्रीनिवासु

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) "लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल)" के संवर्ग को रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी(यों) का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदग्रहण तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	एम. सत्यनारायण-IV	87/13.8.2003	14.8.2003 (पू.)
2.	एम. वी. सत्यनारायण	87/13.8.2003	18.8.2003 (पू.)

क्रम सं.	अधिकारी(यों) का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदग्रहण तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
3.	जी. रवि कुमार	87/13.8.2003	29.8.2003 (पू.)
4.	सी.एच.वी. साई प्रसाद	87/13.8.2003	14.8.2003 (पू.)
5.	एम.आर.के. वरप्रसाद	87/13.8.2003	01.9.2003 (पू.)

उपर्युक्त पदोन्नतियाँ उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित याचिकाओं के परिणामों के बशर्ते आदेशित हैं। भारत सरकार का.जा.सं. एफ 7/1/80-स्था. (पी.1) दिनांक 26.9.1981 तथा एफ 13/26/82 स्था (पी.1) दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

श्रीनिवासु

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 02 सितम्बर 2003

स्था.आ. सं.-21--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा ने दिनांक 19.8.2003 से श्री चित्तरंजन बिस्वास-II अनुभाग अधिकारी (लेखा) को वेतनमान रु. 7450-225-11500/- पर सहायक लेखा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) पद पर उनके वरिष्ठों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सहर्ष स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान करते हैं।

2. वे सहायक लेखा अधिकारी पद पर पदोन्नति की तिथि से दो साल तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. सहायक लेखा अधिकारी पद उनकी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय पर आधारित हैं एवं उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

सुपर्णा देव

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2003

सं. ए-19018/1676/2003-प्रशा.(राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोयम्बतूर में लघु उद्योग संवर्द्धन

अधिकारी (विद्युत), श्री जे. राजेन्द्रन को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, दोमापुर (अधीन लघु उद्योग सेवा संस्थान, इम्फाल) में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (विद्युत) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 08.08.2003 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस.वि.एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 4794/बी.ए-12011(3)/2001-19ए, खंड-II--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्रीमती आशा लता चाकू, वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति पर, इसी विभाग में रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान के नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप से अगले आदेशों तक दिनांक 07.07.2003 (पूर्वाह) से नियुक्त करते हैं।

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 2 सितम्बर 2003

सं. 2521/ए/ए-32014(2)--ओ.एस./2001-19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, श्री आर.बी. माटे, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अधिकारी-सर्वेक्षक के रूप में पदोन्नति पर इसी विभाग में रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान के नियमानुसार वेतन पर अस्थाई स्थानापन्न रूप में 08.08.2003 (अपराह) से आगामी आदेशों तक मध्य क्षेत्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ए.एम.एस.ई. स्कंध, नागपुर में पदोन्नति पर तैनाती स्थान सहित नियुक्त करते हैं।

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं. 2532/ए/ए-32013/2-जी. (आई)(ज.)/2000/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी निम्नलिखित सहायक भूभौतिकीविद (उपकरण) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भूभौतिकीविद

(कनिष्ठ) (उपकरण) के पद पर पदोन्नति पर की नियुक्ति को, इसी विभाग में 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक अनुमोदित करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	भूभौतिकीविद (कनिष्ठ) (उपकरण) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि
1	2	3
01	श्री बी.एल. बनिक	24.07.2003 (पूर्वाह)
02	श्री एस.के. विश्वास	18.08.2003 (पूर्वाह)

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 30 अगस्त 2003

सं. 4-320/2003/स्था.--निदेशक (प्रभारी), भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता, सहर्ष श्री जाधव एस. जय शंकर राव, अनुसंधान सहयोगी (शास्त्रीय) को सहायक मानवविज्ञानी (शारीरिक) (ग्रुप-बी राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10500/- की दर से इस सर्वेक्षण के मध्य क्षेत्रीय केन्द्र, नागपुर में दिनांक 28 जुलाई 2003 के पूर्वाह से अगला आदेश तक नियुक्त करते हैं।

अरुण कुमार सिंह
कार्यालय अध्यक्ष

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(फिल्म प्रभाग)

मुंबई-400026, दिनांक 26 अगस्त 2003

सं. ए. 32014/1/2002-स्थापना-I--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा, श्री वी. एस. नार्वेकर, अधीक्षक को फिल्म प्रभाग, मुंबई में पदोन्नति के आधार पर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी वर्ग 'ख', राजपत्रित, के पद पर, रु. 7,450-225-11,500 के वेतनमान में दिनांक 8 अगस्त, 2003 (अपराह) से अगले आदेश मिलने तक नियुक्त किया जाता है।

कीर्ती के. गुप्ता
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

सं. ए. 32014/2/2002-स्थापना-I--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा, श्री वी. एस. शंकरदास, बैकग्राउण्ड

आर्टिस्ट (पृष्ठभूमि कलाकार) को फिल्म प्रभाग, मुंबई में पदोन्नति के आधार पर, ले आऊट आर्टिस्ट (अभिन्यास कलाकार), वर्ग 'ख', राजपत्रित, के पद पर, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में दिनांक 11 अगस्त, 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश मिलने तक नियुक्त किया जाता है।

कीर्ती के. गुप्ता
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते मुख्य निर्माता

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

मुंबई-400085, दिनांक 27 अगस्त 2003

सं./स्थापना 1 ए./2918--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद जिसका कार्यभार छोड़ा गया	कार्यभार छोड़ने की तिथि	कारण
1	2	3	4	5
1.	डॉ. गौर पुखराज	आरएम ओ	20.03.2003	त्यागपत्र
2.	श्री शरदचंद्र दिगंबर धस्करकर	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	31.03.2003	अधिवर्षिता
3.	श्री सूरज प्रकाश गंभीर	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	31.03.2003	अधिवर्षिता
4.	श्री उन्नीकृष्ण कुट्टीनाथ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.03.2003	अधिवर्षिता
5.	डॉ. रमेश चंद्र शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/एच	31.03.2003	अधिवर्षिता
6.	डॉ. श्रीमती वेदुरमोदी सुधा राव	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	31.03.2003	अधिवर्षिता
7.	श्री बालकृष्ण वारलु पंतावणे	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	31.03.2003	अधिवर्षिता
8.	डॉ. सूर्यकांत गणपत जाधव	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	31.03.2003	अधिवर्षिता
9.	श्री नटवरलाल जगजीवनदास दुबल	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.03.2003	अधिवर्षिता
10.	डॉ. श्रीमती शिल्पा देशपांडे	आरएमओ	31.03.2003	त्यागपत्र
11.	श्री रमेश कुमार वर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/एच	31.03.2003	अधिवर्षिता
12.	श्री कृष्ण स्वामी गणपतीरामन	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.03.2003	अधिवर्षिता
13.	श्री वेद भूषण	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	31.03.2003	अधिवर्षिता
14.	डॉ. प्रद्युत कुमार चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	01.04.2003	स्वेच्छानिवृत्ति (अपराह)
15.	श्री वल्लूरी वेंकट कोडांडा रामा राव	वैज्ञानिक अधिकारी/एच	01.04.2003	स्वेच्छानिवृत्ति

1	2	3	4	5
16.	डा. बचवाणी अविनाश सुरेश	आरएमओ	06.04.2003	स्वेच्छा सेवानिवृत्ति निर्धारित अवधि नियुक्ति की समाप्ति
17.	श्री नाडुवधु परमखिल गौपी	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	30.04.2003	अधिवर्षिता
18.	डॉ. दिनकर रामचंद्र पंत	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	30.04.2003	अधिवर्षिता
19.	श्री अविनाश विष्णु कोसावकर	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	30.04.2003	अधिवर्षिता
20.	डॉ. कुलाधु वीरामणी अय्यर	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	30.04.2003	अधिवर्षिता
21.	श्री कोदियल किशोर शंकर राव	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	30.04.2003	अधिवर्षिता
22.	श्री मधुसूदन केशव दोक्षित	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	30.04.2003	अधिवर्षिता
23.	डॉ. राकेश कुमार धुपिया	आरएमओ	03.05.2003	त्यागपत्र
24.	श्री नील रतन सिन्हा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	12.05.2003	त्यागपत्र
25.	डॉ. चंद्र शेखर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	28.05.2003	त्यागपत्र
26.	श्री देवेंद्र बाबुराव लाखोले	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.05.2003	अधिवर्षिता
27.	डॉ. रामास्वामी वेंकटरमणी	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	31.05.2003	अधिवर्षिता
28.	श्री मुरलीधर चिंतामणी राव	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.05.2003	अधिवर्षिता
29.	श्रीमती सुशीला सुंदर राव	वरिष्ठ निजी सचिव	31.05.2003	अधिवर्षिता
30.	श्री मूलचारी सुकुमारन नायर	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.05.2003	अधिवर्षिता
31.	श्री तिरु माला वुक्कापट्टनम शेषाशई	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.05.2003	अधिवर्षिता
32.	श्री पुतानवेटील रामचंद्रन मेनन	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	31.05.2003	अधिवर्षिता
33.	श्री दयवेन सिंह काटोच	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	31.05.2003	अधिवर्षिता
34.	श्री जेमी सोरब कोचमन	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	31.05.2003	अधिवर्षिता
35.	श्री कासिम मुस्तफा अली	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.05.2003	अधिवर्षिता
36.	श्री पी.वी.अरेडीअर अय्यपन	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	31.06.2003	अधिवर्षिता
37.	डॉ. शांताराम शिवराम सावंत	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	31.06.2003	अधिवर्षिता
38.	श्री श्रीपाद राजाराम हलबे	वैज्ञानिक अधिकारी/एच	31.06.2003	अधिवर्षिता

1	2	3	4	5
39.	डा. श्रीराम बालकृष्ण मनोहर	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.06.2003	सेवावधि विस्तार के पश्चात् सेवानिवृत्ति
40.	श्री स्वर्णेश शंकर भट्टाचार्य	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	30.06.2003	अधिवर्षिता
41.	श्री अविनाश श्रीनिवास गोखले	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	30.06.2003	अधिवर्षिता
42.	डॉ. जॉर्ज वडुकोट चाको	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	30.06.2003	अधिवर्षिता
43.	श्री अय्यर कल्याण वेंकटराम	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	30.06.2003	अधिवर्षिता
44.	श्री पेरीकामना नारायण नम्बुद्री	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	30.06.2003	अधिवर्षिता
45.	श्री गुहागरकर मोहन बालचंद्र	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	30.06.2003	अधिवर्षिता
46.	श्री मडप्पड कलायुधन सुरेन्द्रनाथ	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	30.06.2003	अधिवर्षिता
47.	श्री रंगनाथ गणेश स्वामी	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	30.06.2003	अधिवर्षिता
48.	श्री विठ्ठल यशवंत कानविंदे	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	30.06.2003	अधिवर्षिता
49.	श्री मृदुल धरन पाल	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	30.06.2003	अधिवर्षिता
50.	श्री कृष्णस्वामी रंगनाथन	वैज्ञानिक अधिकारी/एच	30.06.2003	अधिवर्षिता
51.	श्री जयदेव महारूद्रप्पा शिलवेंदरा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	30.06.2003	अधिवर्षिता
52.	डॉ. देवेंद्रनाथ श्रीवास्तव	वैज्ञानिक अधिकारी/एच	30.06.2003	अधिवर्षिता

ऑन्योनी डी. सा.
नियंत्रक

मुम्बई-400085, दिनांक 2 सितम्बर 2003

सं. पीडी/13(7)/97-आर-III/1126--नियंत्रक, भाभा परमाणु
अनुसंधान केन्द्र, श्री टी. नागेन्द्रन, सहायक लेखा अधिकारी, प्रगत प्रौद्योगिकी
केन्द्र इन्दौर, को दिनांक 30.06.2003 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक
रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में आर एम पी, मैसूर में लेखा
अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र)

इन्दौर-452013, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. केट/स्था./123/725:--अधिवर्षिता की आयु प्राप्ति के फलस्वरूप
श्री सत्य नारायण व्यास ने प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में दिनांक अगस्त
31, 2003 अपराह्न को वैज्ञानिक अधिकारी/जी के पद का कार्यभार छोड़
दिया है।

पी. मोहन बाबु
प्रशासनिक अधिकारी-III

इन्दौर-452013, दिनांक 5 सितम्बर 2003

सं. केट/प्रशा.-2003/भ-805(अ)/942:--भारत के राष्ट्रपति डॉ. के.
सी. रुस्तगी, वैज्ञानिक अधिकारी/एच को पदोन्नति पर उत्कृष्ट वैज्ञानिक
के पदक्रम में रुपये 22,400-525-24,500 के वेतनमान में दिनांक
01 अगस्त, 2003 की पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र,
इन्दौर में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. सी. जैन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 30 अगस्त 2003

सं. नाईस/काप्रभ-1/03/02/1000--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र,
हैदराबाद में डॉ. सी. पद्मप्रभु को रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान
में दिनांक 01.08.2003 से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर
वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "डी" के रूप में सहर्ष नियुक्त
करते हैं।

टी. वाई. प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ-1/03/02/1001--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र,
हैदराबाद में श्रीमती देवस्वप्ना लाहिरी को रु. 10,000-325-15,200 के
वेतनमान में दिनांक 01.08.2003 से आगामी आदेशों तक तदर्थ
आधार पर वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "डी" के रूप में सहर्ष
नियुक्त करते हैं।

टी. वाई. प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

तिरुवनंतपुरम-695022, दिनांक 22 जुलाई 2003

सं. वी.एस.एस.सी./स्था./एफ./1/17--नियंत्रक, विक्रम साराभाई
अन्तरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) एतद्वारा श्री गौधलेकर उषेंद्र सुभाष चंद्र

को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 17.06.2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक वी एस एस सी में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन गोपीनाथन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स वृन्दा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/25726--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वृन्दा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स नेशनल स्विच गीयर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. एल.सी./560(3)/6337--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स नेशनल स्विच गीयर्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कमल इन्वेस्टर्स (कानपुर) प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस. 6236/1542--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कमल इन्वेस्टर्स (कानपुर) प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एम. के. बशिष्ठ कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./5764--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. के. बशिष्ठ कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सुनितराज एग्रोमेक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./10834--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुनितराज एग्रोमेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स दा दयालबाग फार्मास्यूटिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./1134--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स दा दयालबाग फार्मास्यूटिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स अवध शीतगृह प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अवध शीतगृह प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मालनपुर टिम्बर्स (प्राईवेट) लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 2 सितम्बर 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/एस.टी.ए./धारा 560(3)/646--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स मालनपुर टिम्बर्स (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर-34, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/जेटीए/पीएस/2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	17165	मैसर्स ओनिन्ड फाइनान्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	21191	मैसर्स बैरावेश्वरा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	18774	मैसर्स इन्फोकाम टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड।

टी. एस. दुर्गा प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर-34, दिनांक 1 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/जेटीए/पीएस/2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	28055	मैसर्स सूसे लिन्क्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	28528	मैसर्स ग्लॉटिडाट्स टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
3.	27988	मैसर्स डाक डाक असिस्ट काम प्राईवेट लिमिटेड।

टी. एस. दुर्गा प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर-34, दिनांक 5 सितम्बर 2003

सं. 560(5)/जेटीए/पीएस/2003-2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	21411	मैसर्स फ्लोरा कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	21351	मैसर्स बीमाकान प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

टी. एस. दुर्गा प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 5th September 2003

No. F.20/2003-SCA(I)—Shri I. L. Dhingra, Offg. Assistant Registrar has retired from the service of the Registry of Supreme Court of India with effect from the afternoon of August 31, 2003 on his attaining the age of superannuation.

ASHOK KUMAR
Jt. Registrar (Admn.)

No. F.20/2003-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint the following Officers of this Registry to the posts with effect from the dates mentioned against each, until further orders :—

S. No.	Name and Designation	Post to which promoted/ appointed and date
1.	Shri V.K. Minocha, Deputy Registrar	Promoted to officiate as Joint Registrar against the purely short term temporary vacancy available on account of deputation of its incumbent with effect from the afternoon of September 2, 2003.
2.	Shri Govind Singh, Deputy Registrar	Promoted to officiate as Joint Registrar against the purely short term temporary vacancy available on account of deputation of its incumbent with effect from the afternoon of September 2, 2003.
3.	Shri Vinod Kumar, (S/c Shri O.P. Sharma) Assistant Registrar	Promoted to officiate as Deputy registrar against the consequential purely short term temporary vacancy available on account of promotion of its incumbent with effect from the forenoon of September 4, 2003.
4.	Shri Viswanathan T.K., Court Master (Shorthand) presently on deputation to Debts Recovery Tribunal at Chennai.	Promoted to officiate as Assistant Registrar-cum-Private Secretary to Hon'ble Judge (proforma) against the short term temporary vacancy available on account of deputation of its incumbent with effect from September 2, 2003.
5.	Shri Sukadev Sarangi, Court Master (Shorthand) presently on deputation to Debts Recovery Tribunal at Cuttack.	Promoted to officiate as Assistant Registrar-cum-Private Secretary to Hon'ble Judge (proforma) against the short term temporary vacancy available on account of deputation of its incumbent with effect from September 2, 2003.

S. No.	Name and Designation	Post to which promoted/ appointed and date
6.	Shri Y.P. Dhamija, Court Master (Shorthand)	Promoted to officiate as Assistant Registrar-cum-Private Secretary to Hon'ble Judge against the purely short term temporary vacancy available on account of deputation of its incumbent with effect from the afternoon of September 2, 2003.
7.	Shri Naresh Kumar, Court Master (Shorthand)	Promoted to officiate as Assistant Registrar-cum-Private Secretary to Hon'ble Judge against the purely short term temporary vacancy available on account of deputation of its incumbent with effect from the afternoon of September 2, 2003.

ASHOK KUMAR
Jt. Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 24th July 2003

No. A-19016/3/03-Admn.I—In pursuance of DOP & trg. OM No. 20/9/2003-CS.II dated 02nd July 2003, the President is pleased to appoint Shri H.C. Sehgal, regular Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS cadre of Health, holding the post of Principal Private Secretary on personal upgradation basis as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in CSSS cadre of UPSC on ad-hoc basis w.e.f. 18th July to 31st December 2003 or till the post is filled up on regular basis, or till further orders whichever is earlier :

2. The appointment of Shri H.C. Sehgal as PPS is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS (PPS).

M. NIRMALA RAO
Under Secretary (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 3rd September 2003

No. DPAD52003/3326/3/28/2003-AD.V—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri K. Dhananjayan, Crime Assistant, CBI in the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 04.08.2003.

S.D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

No. DPAD52003/03336/A-19036/17/78—Shri Umesh relinquished charge of the post of Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of July 31, 2003.

S.D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

No. DPAD52003/03421/3/26/2003-AD.V—The President is pleased to appoint Shri L. Ramachandaran, Accounts Officer, ISTRAC/ISRO, Bangalore as Technical Officer (Accounts & Income Tax) in Central Bureau of Investigation, on deputation basis, w.e.f. the forenoon of 28.7.2003 for a period of three years up to 27.07.2006 or until further orders whichever is earlier.

S.D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 1st September 2003

No. 2/27/02-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Smt. Sharda Khanna, Assitant as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- purely on ad-hoc basis for a period of three months w.e.f. 29.8.2003 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

2. Her appointment to the post of Section Officer is made purely on ad-hoc basis under rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon her any claim for regular appointment.

MANGE LAL
Deputy Secretary (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 29th August 2003

No. O.II-1336/77-Pers.I—Consequent on acceptance of his notice dated 14.07.2003 for voluntary retirement from Government service, Shri Sunil Shori, Commandant (IRLA-1519 of 66 Bn, CRPF has been relieved from his post on 19.08.2003 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 19.08.2003. (F.N.).

MAN SINGH RAWAT
DIGP (Pers.)

The 30th August 2003

No. O.II-1368/77-Pers.I—Consequent on acceptance of his notice dated 21.05.2003 for voluntary retirement from Government service, Shri Vikas Sharan, Commandant

3—246 GI/2003

(IRLA-1533 of 129 Bn, CRPF (Attached with Dte Gen (communication) has been relieved from his post on 10.07.2003 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 10.07.2003. (F.N.).

MAN SINGH RAWAT
DIGP (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 27th August 2003

No. Admn-I/1255-III/2003-2004/176—Under orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 16.7.2003, the following Section Officer, who is now on deputation to the office of the Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been granted proforma promotion as Asstt. Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the date on which his junior as shown below takes over charge as Asstt. Accounts Officer in this office, in a temporary and officiating capacity until further orders :-

Name of the person granted proforma promotion	Name of his next junior
Shri Panthalingal Sandip Menon	Shri Satadal Bag

All the conditions precedent to the grant of promotion under the "Next below rules" stand fulfilled in this case and it has been declared that the post held by Shri Menon now on deputation is outside the ordinary line of service.

Shri Menon will be on probation for two years from the date of his promotion. On promotion, his pay will be fixed under F.R. 22 I (a)(i) for which he may exercise his option for fixation of pay, within one month from the date of issue of his order.

N.N. HALDER
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), J&K,

Srinagar, the 1st September 2003

No. Admn.-I/Audit/50—The Accountant General (Audit), J&K has been pleased to order the promotion of Shri Omkar Singh, Assistant Audit Officer as Audit Officer (Group 'B') in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 7500-250-12000 from the date he assumes charge as Audit Officer at Head Office, Srinagar. He will continue to work at the present place of his posting till further orders.

The promotee may exercise option for fixation of his pay in terms of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel)

and Training) O.M. No. 1/2/87-Estt Pay-I, dated 09.11.1987 within one month of the date of his promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT-I) ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 3rd September 2003

Principal Accountant General (Audit-I), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirements of the following Senior Audit Officers (Civil) with effect from the date(s) noted against their names :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of retirement
	S/Shri/Smt.	
1.	N. Rama Narasimha Chary	31.08.2003 AN
2.	K. Subba Rao-II	31.08.2003 AN
3.	A. R. Satya Premakumar	31.08.2003 AN
4.	R. Seshatalpa Sayee	31.08.2003 AN
5.	Y.V.N. Vara Prasada Rao	31.08.2003 AN
6.	G. Seshagiri	31.08.2003 AN

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Audit-I), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Assistant Audit Officer with effect from the date noted against his name :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of retirement
	S/Shri	
1.	V. Mallaiiah	31.08.2003 AN

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Audit-I), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) of this Office to the cadre of "Audit Officers" (Civil) in the Scale of Rs. 7,500-250-12,000 with effect from the date of mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No. & Date	Date of Assumption charge
1	2	3	4
	(S/Shri)		
1.	M. Satyanarayana-IV	87/13.08.2003	14.08.2003 FN

1	2	3	4
2.	M.V. Satyanarayana	87/13.08.2003	18.08.2003 FN
3.	G. Ravi Kumar	87/13.08.2003	29.08.2003 FN
4.	Ch. V. Sai Prasad	87/13.08.2003	14.08.2003 FN
5.	M.R.K. Varaprasad	91/01.09.2003	01.09.2003 FN

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High court/Supreme court of India/Central Administrative Tribunal etc.

They should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government of India O.M. No. F. 7/1/80-Estt. (P.I.) dated 26.09.1981 and F.13/26/82-Estt. (P.I.) dated 08.02.1983.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ORISSA

Bubaneswar, the 02nd September 2003

EO No. 21—The Accountant General (A&E), Orissa has been pleased to allow Shri Chittaranjan Biswas-II Section officer (Accounts) to officiate in the cadre of Assistant Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Pay of Rs. 7450-225-11500/- with effect from 19.8.2003 (F.N.) without prejudice to the claims of his seniors until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years from the date of his promotion as Assistant Accounts officer.

3. The promotion to the cadre of Assistant Accounts Officers is subject to the final decision of Supreme Court/High Court/Central Administrative Tribunal without prejudice to the claims of his seniors.

S. DEB
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 20th August 2003

No. A-19018/1676/2003-Admn(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint

Shri J. Rajendran, Small Industry Promotion Officer (Electrical), Branch Small Industries Service Institute, Coimbatore as Assistant Director (Grade-II) (Electrical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in Branch Small Industries Service Institute, Dimapur (under Small Industries Service Institute, Imphal) with effect from the forenoon of 08.08.2003 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

KHAN MANTRALAYA
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 1st September 2003

No. 4794/B./A-12011(3)/2001-19A, Vol. II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint Smt. Asha Lata Chaku, Sr. Assistant Librarian, Geological Survey of India to the post of Librarian with effect from 07.07.2003(FN) on promotion in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in an officiating capacity, until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
For Director General, GSI

The 2nd September 2003

No. 2521A/A-32014/2-OS/2001/19B.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General is pleased to appoint Shri R. B. Mate, STA (Survey) in Geological Survey of India as Officer Surveyor on promotion in the same department on pay according to the rules in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- in a temporary officiating capacity with effect from 08.08.2003 (AN) with place of posting on promotion at Central Zone, Geological Survey of India AMSE Wing, Nagpur until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
For Director General, GSI

The 3rd September 2003

No. 2532A/A-32013/2-G(1)(j)/2000/19B.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to approve the appointment of the following Assistant Geophysicist (Instn.), Geological Survey of India on promotion to the post of Geophysicist (Jr.) (Instn.) in the same department on pay according to the

rules in the scale of pay of Rs. 8000-275-13,500/- in an officiating capacity until further orders.

Sl. No.	Name of the officer	Date of joining to the post Geophysicist (Jr.) (Instn.)
01.	Sri B. L. Banik	24.07.2003(FN)
02.	Sri S. K. Biswas	18.08.2003(FN)

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General, GSI

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 30th August 2003

No. 4-320/2003/Estt.—The Director-in-Charge, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Jadhav S. Jaya Sankar Rao, Research Associate (Physical), to the post of Assistant Anthropologist (Physical), (Group-B, Gazetted), in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- at the Central Regional Centre of this Survey at Nagpur with effect from the forenoon of the 28th July, 2003, until further orders.

ARUN KUMAR SINGH
Head of Office

MINISTRY OF INFORMATION &
BROADCASTING
(FILMS DIVISION)

Mumbai-400026, the 26th August 2003

No. A-32014/1/2002-Estt. I.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority has appointed Shri V. S. Narvekar, Superintendent, on promotion to the post of Asstt. Administrative Officer, Group 'B' Gazetted in the Films Division, Mumbai in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the afternoon of 8th August, 2003, until further orders.

KIRTI K. GUPTA
Sr. Administrative Officer
for Chief Producer

No. A-32014/2/2002-Estt. I.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority has appointed Shri V. S. Shankardas, Background Artist on promotion to the post of Layout Artist, Group 'B' Gazetted in the Films Division, Mumbai in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 11th August, 2003 until further orders.

KIRTI K. GUPTA
Sr. Administrative Officer
for Chief Producer

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)**

Mumbai-400085, the 27th August 2003

No. Est. IA/2918

Sl. No.	Name of the Officer	Relinquished the Charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1	2	3	4	5
01.	Dr. Gaur Pukhraj	RMO	20.03.2003	Resignation
02.	Shri Sharadchandra Digambar Dharurkar	SO/F	31.03.2003	Superannuation
03.	Shri Suraj Prakash Gambhir	SO/F	31.03.2003	Superannuation
04.	Shri Unnikrishnan Kuttinath	SO/E	31.03.2003	Superannuation
05.	Dr. Ramesh Chandra Sharma	SO/H	31.03.2003	Superannuation
06.	Dr. (Smt.) Vedurmodi Sudha Rao	SO/G	31.03.2003	Superannuation
07.	Shri Baikrishna Warlu Pantawane	SO/D	31.03.2003	Superannuation
08.	Dr. Suryakant Ganpat Jadhav	SO/F	31.03.2003	Superannuation
09.	Shri Natvarlal Jagjivandas Dubal	SO/E	31.03.2003	Superannuation
10.	Dr. (Smt.) Shilpa Deshpande	RMO	31.03.2003	Resignation
11.	Shri Ramesh Kumar Verma	SO/H	31.03.2003	Superannuation
12.	Shri Krishna Swami Ganpathiraman	SO/E	31.03.2003	Superannuation
13.	Shri Ved Bhushan	SO/G	31.03.2003	Superannuation
14.	Dr. Pradyot Kumar Chowdhury	SO/F	01.04.2003(FN)	Vol. Retirement
15.	Shri Valluri Venkata Kodanda Rama Rao	SO/H	01.04.2003(FN)	Vol. Retirement
16.	Dr. Bachwani Avinash Suresh	RMO (FTA)	06.04.2003	Termination of fixed term appointment
17.	Shri Naduvathu Parambil Gopi	SO/F	30.04.2003	Superannuation
18.	Dr. Dinkar Ramchandra Pant	SO/D	30.04.2003	Superannuation
19.	Shri Avinash Vishnu Korgaonkar	SO/G	30.04.2003	Superannuation
20.	Dr. Kulathu Veeramani Iyer	SO/E	30.04.2003	Superannuation
21.	Shri Kodial Kishor Shanker Rao	SO/E	30.04.2003	Superannuation
22.	Shri Madhusudan Keshav Dixit	SO/G	30.04.2003	Superannuation
23.	Dr. Rakesh Kumar Dhupia	RMO	03.05.2003	Resignation
24.	Shri Neel Ratan Sinha	SO/D	12.05.2003	Resignation
25.	Dr. Chandra Shekhar	SO/C	28.05.2003	Resignation
26.	Shri Devendra Baburao Lakhole	SO/E	31.05.2003	Superannuation
27.	Dr. Ramaswamy Venkataramani	SO/F	31.05.2003	Superannuation
28.	Shri Murlidhar Chintamani Barve	SO/E	31.05.2003	Superannuation
29.	Smt. Susheela Sundar Rao	Sr. Pvt. Secretary	31.05.2003	Superannuation
30.	Shri Moolchari Sukumaran Nair	SO/E	31.05.2003	Superannuation
31.	Shri Tirumala Bukkapattanam Sheshashai	SO/E	31.05.2003	Superannuation
32.	Shri Puthanveetil Ramachandran Menon	SO/F	31.05.2003	Superannuation
33.	Shri Daywent Singh Katoch	SO/G	31.05.2003	Superannuation

1	2	3	4	5
34.	Shri Jemi Sorab Coachman	SO/F	31.05.2003	Superannuation
35.	Shri Qasim Mustafa Ali	SO/E	31.05.2003	Superannuation
36.	Shri Pitchiahreddiar Ayappan	SO/F	30.06.2003	Superannuation
37.	Dr. Shantaram Shivram Sawant	SO/E	30.06.2003	Superannuation
38.	Shri Shripad Rajaram Halbe	SO/H	30.06.2003	Superannuation
39.	Dr. Shriram Balakrishna Manohar	Outstanding Scientist	30.06.2003	Retirement after extension of service.
40.	Shri Swarnendu Shekhar Bhattacharya	SO/D	30.06.2003	Superannuation
41.	Shri Avinash Shrinivas Gokhale	SO/E	30.06.2003	Superannuation
42.	Dr. George Vadukkot Chacko	SO/F	30.06.2003	Superannuation
43.	Iyer Kalyana Venkataram	SO/G	30.06.2003	Superannuation
44.	Shri Perikamana Narayanan Namboodiri	SO/F	30.06.2003	Superannuation
45.	Shri Guhagarkar Mohan Balchandra	SO/D	30.06.2003	Superannuation
46.	Shri Madappad Velayudhan Surendranath	SO/E	30.06.2003	Superannuation
47.	Shri Ranganath Ganesh Swami	SO/G	30.06.2003	Superannuation
48.	Shri Vithal Yashvant Kanvinde	SO/F	30.06.2003	Superannuation
49.	Shri Mridul Baran Pal	SO/G	30.06.2003	Superannuation
50.	Shri Krishnaswamy Ranganathan	SO/H	30.06.2003	Superannuation
51.	Shri Jayadev Maharudrappa Sheelvantra	SO/D	30.06.2003	Superannuation
52.	Dr. Devendra Nath Srivastava	SO/H	30.06.2003	Superannuation

ANTHONY DE SA
Controller

Mumbai-400085, the 02nd September 2003

No. PD/13(7)/98-R-III/1126—Controller, BARC appoints Shri T. Nagendran, Asstt. Accounts Officer, CAT, Indore to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000, at RMP, Mysore w.e.f. the forenoon of 30.06.2003 on regular basis until further orders.

K. C. DIYAKARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY)

Indore-452013, the 1st September 2003

No. CAT/Estt./123/725—Consequent on attaining the age of superannuation Shri Satya Narayan Vyas has relinquished the charge of the post of Scientific Officer/G in the Centre for Advanced Technology, Indore w.e.f. afternoon of August 31, 2003.

P. MOHAN BABU
Admn. Officer-III

Indore-452013, the 05th September 2003

No. CAT/2003-Admn/R-805 (A)/942—The President of India is pleased to appoint Dr. K. C. Rustagi, Scientific Officer/H on promotion to the grade Outstanding Scientist in the scale of pay of Rs. 22400-525-24500 with effect from the forenoon of 01st August, 2003 in an officiating capacity in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

S. C. JAIN
Chief Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 30th August 2003

No. NFC/PAR-I/03/02/1000—The President is pleased to appoint Dr. C. Padmaprabu as Scientific Officer/Engineer grade 'D' in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad on adhoc basis with effect from the forenoon of 01.08.2003 until further orders.

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/03/02/1001—The President is pleased to appoint Smt. Debrupa Lahiri as Scientific Officer/Engineer grade 'D' in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad on adhoc basis with effect from the forenoon of 01.08.2003 until further orders.

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE
(VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE)

Thiruvananthapuram-695 022, the 22nd July 2003

No. VSSC/EST/F/1(17)—Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion Shri Gondhelekar Upendra Subash Chandra as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in VSSC with effect from 17.06.2003(FN), until further orders.

N. GOPINATHAN
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vrinda Marketing Private Limited

Kanpur-208 001, the 1st September 2003

No. 560(3)/LC/25726/7907—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vrinda Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. National Switch Gears Limited

Kanpur-208 001, the 1st September 2003

No. 560(3)/LC/6337/7909—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. National Switch Gears Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamal Investors (Kanpur) Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/6236/1542—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Kamal Investors (Kanpur) Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M.K. Vasista Constructions Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/5764/1543—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. M.K. Vasista Constructions Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunitraj Agromech Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/10834/1544—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Sunitraj Agromech Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. The Dayalbagh Pharmaceuticals Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/1134/1545—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. The Dayalbagh Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. The Dayalbagh Leather Goods
Factory Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/2014/1546—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. The Dayalbagh Leather Goods Factory Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. The Dayalbagh Leather Work Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/1027/1547—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. The Dayalbagh Leather Work Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. The Everyday Footwear Factory Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/1034/1548—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. The Everyday Footwear Factory Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dayanand Infosoft Services Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/24642/1549—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Dayanand Infosoft Services Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tandan Financers Investment
Services Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/16957/1550—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Tandan Financers Investment Services Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kant K.R. Financial Service &
Investment Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/16656/1551—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Kant K.R. Financial Service & Investment Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M.R. Investment & Financial
Consultants Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/16578/1552—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. M.R. Investment & Financial Consultants Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Avadh Sheetgrah Private Limited

Kanpur-208 001, the 3rd September 2003

No. 560(5)/LC/SES/24606/1553—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Avadh Sheetgrah Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

D.R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies,
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Malanpur Timbers (Private) Limited

Gwalior-474 009, the 2nd September 2003

No. ROC-G/10547/Sec.560(3)/2002/1646—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Malanpur Timbers (Private) Limited unless cause is shown to the contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies,
M.P. & Chhattisgarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. The following Companies.

Bangalore-560 034, the 1st September 2003

No. JTA/PS/SI.No./560(5)/03-04—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the Company of M/s. the following companies has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

Sl.No.	Co.No.	Name of the Company
1.	17165	M/s. Omind Financial Services Limited
2.	21191	M/s. Byraheswara Resorts Private Limited
3.	18774	M/s. Infocomm Technologies Private Limited.

T. S. D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies,
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. The following Companies.

Bangalore-560 034, the 1st September 2003

No. JTA/PS/SI.No./560(5)/03-04—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the Company of M/s. the following companies has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

Sl.No.	Co.No.	Name of the Company
1.	28055	M/s. Suse Linux India Private Limited
2.	28528	M/s. Gladiators Technologies Private Limited
3.	27988	M/s. DOC DOC Assist Com. Private Limited.

T. S. D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies,
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. The following Companies.

Bangalore-560 034, the 5th September 2003

No. JTA/PS/SI.No./560(5)/03-04—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the Company of M/s. the following companies has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

Sl.No.	Co.No.	Name of the Company
1.	21411	M/s. Flora Consultants Private Limited
2.	21351	M/s. Binaca Projects Private Limited.

T. S. D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies,
Karnataka